



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 858] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 4, 2018/अग्रहायण 13, 1940
No. 858] NEW DELHI TUESDAY, DECEMBER 4, 2018/AGRAHAYANA 13, 1940

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि.1165.(अ)—केंद्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (घ) और (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम सिक्का निर्माण (पाइक विद्रोह की दो सौवीं सालगिरह के अवसर पर स्मारक सिक्के जारी करना) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **सिक्कों का अंकित मूल्य.**—“पाइक विद्रोह की दो सौवीं सालगिरह” के अवसर पर केन्द्र सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने हेतु एकसाल में दो सौ रुपये मूल्यवर्ग के सिक्कों का निर्माण किया जाएगा।

3. **सिक्कों की विमाएं और संरचना.**— नियम 2 में उपर्युक्त अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :-

सिक्के का अंकित मूल्य	आकृति और बाह्य व्यास	दांतों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
दो सौ रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	चतुर्थक मिश्र धातु रजत- 50 प्रतिशत तांबा - 40 प्रतिशत निकल - 05 प्रतिशत जस्ता - 05 प्रतिशत

4. **डिज़ाइन.**—सिक्कों का डिज़ाइन इन नियमों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए अनुसार होगा।

5. **मानक वजन तथा अनुज्ञात छूट.**—पाइक विद्रोह की दो सौवीं सालगिरह के अवसर के उपलक्ष्य में उपर्युक्त अंकित मूल्य के बनाए गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्कों को बनाने में अनुज्ञात छूट इन नियमों की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाएगी।

पहली अनुसूची

(नियम 4 देखें)

(i) दो सौ रुपये

अग्र भाग

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” उत्कीर्णित होगा, उसकी बायीं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दायीं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक “₹” और अंतरराष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “200” भी होगा।

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग के मध्य में घोड़े की सवारी करते हुए “बक्शी जगबन्धु” का चित्र होगा। सिक्के की ऊपरी परिधि और निचली परिधि पर क्रमशः देवनागरी लिपि में “पाइक विद्रोह की 200वीं सालगिरह” तथा अंग्रेजी में “BICENTENARY OF PAIKA BIDROHA” उत्कीर्णित होगा। सिक्के की बायीं तथा दायीं परिधि पर अंतरराष्ट्रीय अंकों में क्रमशः वर्ष “1817 और 2017” अंकित होंगे।

दूसरी अनुसूची

(नियम 5 देखें)

सिक्के का अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुज्ञात छूट	
		संरचना में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
दो सौ रुपये	35 ग्राम	रजत में 1/500वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् रजत के अंश में प्रति 1000 में 498 से 502 तक का अंतर हो सकेगा।	1/100वां जमा या घटा अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम के बीच हो सकता है।

[एफ. सं. 02/01/2018-सिक्का]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2018

G.S.R. 1165(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative coin on the occasion of Bicentenary of Paika Bidroha) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coins.**- The coins of two hundred rupees denomination shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of “Bicentenary of Paika Bidroha”.

3. **Dimension and composition of coins.**- The coins of the above denomination mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely:-

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Two Hundred Rupees	Circular 44 millimeter	200	Quaternary Alloy Silver - 50 Per cent Copper - 40 Per cent Nickel - 05 Per cent Zinc - 05 Per cent

3. **Design.-** The design of the coin shall be as specified in the First Schedule to these rules.
4. **Standard weight and remedy allowed. –** The Standard weight of the coin of the above denomination coined to commemorate the occasion of Bicentenary of Paika Bidroha and the remedy allowed in making of coin shall be as specified in the Second Schedule to these rules

First Schedule
(See Rule 4)

TWO HUNDRED RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “ भारत ” in Devnagri script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “200” in International Numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of the coin shall bear the picture of “Bakshi Jagbandhu” riding the horse in the centre. The inscription “पाइक विद्रोह की 200 वीं सालगिरह” in Devnagari Script on the upper periphery and “BICENTENARY OF PAIKA BIDROHA” in English language shall be written on the lower periphery of the coin respectively. The year “1817 and 2017” in international numeral shall be flanked on left and right periphery of the coin respectively.

Second Schedule
(See Rule 5)

Denomination of coin	Standard Weight	Remedy Allowed	
		In composition	In Standard Weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Two Hundred Rupees	35 Grams	1/500 th plus or minus for silver, that is to say the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100 th plus or minus that is to say weight could be 34.65 grams to 35.35 grams.

[F.No. 02/01/2018-Coin]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.